



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27 ] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1978/भाघ 1, 1899  
No. 27 ] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1978/MAGHA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1978

का० आ० 29(अ) 15/आई० डी० आर० ए०/78.—यतः मैसर्स गेडे डायरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कोडरमा, जिला हजारीबाग, बिहार नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग अर्थात् लोहे और इस्पात की नलियों के विनिर्माण में लगा हुआ है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध इस रीति में किया जा रहा है जो संबंधित अनुसूचित उद्योग और लोकहित के लिये अहितकर है,

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस मामले की परिस्थितियों का पूरी तरह अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्न-लिखित व्यक्ति होंगे:—

- श्री आर० एन० चौधरी, अध्यक्ष  
निदेशक (तकनीकी विकास), बिहार सरकार।

2. श्री टी० आर० मोहन राव,

सचिव

सहायक विकास अधिकारी, तकनीकी विकास का महा-निवेशालय, नई दिल्ली।

2 उपर्युक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[स० का० 2(58)/76-सी० यू० सी०]

जी० बी० रामकृष्णा, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 21st January, 1978

S.O. 29(E) 15/IDRA/78. -Whereas the industrial undertaking known as Messrs. Gayday Iron and Steel Company Limited, Kodarma, District Hazaribagh, Bihar, is engaged in the scheduled industry, namely, iron and steel pipes ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry and to public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of :—

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Shri R.N. Chaudhry,<br>Director (Technical Development)<br>Government of Bihar, Patna. | Chairman |
|---|----------|

- |   |        |
|---|--------|
| 2. Shri T. R. Mohan Rao,<br>Assistant Development Officer,<br>Directorate General of Technical Development,<br>New Delhi. | Member |
|---|--------|

The above body shall submit its report within a period of six weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. 2/58/76—CUC]

G.V. RAMAKRISHNA, Additional Secy.